



Shishir ji

08 Feb 1983

06:45 AM

Rewa

Model: Web-MyKundli

Order No: 121416801

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 08/02/1983
दिन _____: मंगलवार
जन्म समय _____: 06:45:00 घंटे
इष्ट _____: 00:02:52 घटी
स्थान _____: Rewa
राज्य _____: Madhya Pradesh
देश _____: India

अक्षांश _____: 24:32:00 उत्तर
रेखांश _____: 81:18:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:04:48 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 06:40:12 घंटे
वेलान्तर _____: -00:14:14 घंटे
साम्पातिक काल _____: 15:50:33 घंटे
सूर्योदय _____: 06:43:51 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:54:21 घंटे
दिनमान _____: 11:10:30 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: शिशिर
सूर्य के अंश _____: 25:04:57 मकर
लग्न के अंश _____: 24:19:42 मकर

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: मकर - शनि
राशि-स्वामी _____: धनु - गुरु
नक्षत्र-चरण _____: मूल - 1
नक्षत्र स्वामी _____: केतु
योग _____: हर्षण
करण _____: बालव
गण _____: राक्षस
योनि _____: श्वान
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: मृग
युँजा _____: अन्त्य
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: ये-येरुसलम
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: लौह - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: कुम्भ

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1904	माघ	19
पंजाबी	संवत : 2039	माघ	26
बंगाली	सन् : 1389	माघ	25
तमिल	संवत : 2039	थई	26
केरल	कोल्लम : 1158	मकरम	25
नेपाली	संवत : 2039	माघ	26
चैत्रादि	संवत : 2039	फाल्गुन	कृष्ण 11
कार्तिकादि	संवत : 2039	पौष	कृष्ण 11

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 11
तिथि समाप्ति काल _____ : 19:34:46
जन्म तिथि _____ : 11
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : मूल
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 07:12:14 घंटे
जन्म योग _____ : मूल
सूर्योदय कालीन योग _____ : हर्षण
योग समाप्ति काल _____ : 25:59:12 घंटे
जन्म योग _____ : हर्षण
सूर्योदय कालीन करण _____ : बालव
करण समाप्ति काल _____ : 19:34:46 घंटे
जन्म करण _____ : बालव
भयात _____ : 06:35:52
भभोग _____ : 67:43:57
भोग्य दशा काल _____ : केतु 6 वर्ष 3 मा 23 दि

घात चक्र


मास _____ : श्रावण
तिथि _____ : 3-8-13
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : भरणी
योग _____ : वज्र
करण _____ : तैतिल
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : सिंह
लग्न _____ : धनु
सूर्य _____ : तुला
चन्द्र _____ : मीन
मंगल _____ : वृश्चिक
बुध _____ : सिंह
गुरु _____ : धनु
शुक्र _____ : कुम्भ
शनि _____ : कन्या
राहु _____ : कुम्भ

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



Kalsarp dosh nivaran kendra

Trimbakeshwar, nashik 42212
8975926418 , 9284065608
kalsarpnivaranpuja@gmail.com

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

			रा
शु मं			
सू ल			
के चं बु	गु	श	

लग्न कुण्डली

रा			शु मं
			सू ल
	श		चं बु के

विंशोत्तरी
केतु 6वर्ष 3मा 23दि
केतु

08/02/1983

04/06/2102

केतु	03/06/1989
शुक्र	03/06/2009
सूर्य	03/06/2015
चन्द्र	03/06/2025
मंगल	02/06/2032
राहु	03/06/2050
गुरु	03/06/2066
शनि	03/06/2085
बुध	04/06/2102

योगिनी

उल्का 5वर्ष 4मा 29दि
सिद्धा

08/07/2024

09/07/2031

सिद्धा	17/11/2025
संकटा	08/06/2027
मंगला	18/08/2027
पिंगला	07/01/2028
धान्या	07/08/2028
भामरी	19/05/2029
भद्रिका	09/05/2030
उल्का	09/07/2031

Kalsarp dosh nivaran kendra

Trimbakeshwar, nashik 42212
8975926418 , 9284065608
kalsarpnivaranpuja@gmail.com


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व अ राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद नं.	रा न	न अं.	स्थिति
लग्न	मक	24:19:42	432:24:33	धनिष्ठा	1	23	शनि मंगल राहु	---
सूर्य	मक	25:04:57	01:00:47	धनिष्ठा	1	23	शनि मंगल राहु	शत्रु राशि
चंद्र	धनु	01:18:12	11:50:55	मूल	1	19	गुरु केतु शुक्र	सम राशि
मंगल	कुंभ	23:13:16	00:46:47	पू०भाद्रपद	1	25	शनि गुरु शनि	सम राशि
बुध	धनु	29:23:12	00:58:21	उत्तराषाढा	1	21	गुरु सूर्य राहु	सम राशि
गुरु	वृश्चि	13:56:00	00:07:58	अनुराधा	4	17	मंगल शनि राहु	मित्र राशि
शुक्र	कुंभ	17:59:22	01:14:35	शतभिषा	4	24	शनि राहु सूर्य	मित्र राशि
शनि	तुला	10:48:11	00:00:28	स्वाति	2	15	शुक्र राहु शनि	उच्च राशि
राहु	मिथु	09:53:27	00:00:55	आर्द्रा	1	6	बुध राहु गुरु	उच्च राशि
केतु	धनु	09:53:27	00:00:55	मूल	3	19	गुरु केतु शनि	उच्च राशि
हर्ष	वृश्चि	14:57:54	00:01:48	अनुराधा	4	17	मंगल शनि गुरु	---
नेप	धनु	04:52:58	00:01:37	मूल	2	19	गुरु केतु मंगल	---
प्लूटो व दशम भाव	तुला	05:53:57	00:00:15	चित्रा	4	14	शुक्र मंगल चंद्र	---
	वृश्चि	06:12:33	--	अनुराधा	--	17	मंगल शनि बुध	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:37:00


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



Kalsarp dosh nivaran kendra

Trimbakeshwar, nashik 42212

8975926418 , 9284065608

kalsarpnivaranpuja@gmail.com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	मकर 11:18:31	मकर 24:19:42
2	कुम्भ 11:18:31	कुम्भ 28:17:19
3	मीन 15:16:08	मेष 02:14:56
4	मेष 19:13:45	वृष 06:12:33
5	वृष 19:13:45	मिथुन 02:14:56
6	मिथुन 15:16:08	मिथुन 28:17:19
7	कर्क 11:18:31	कर्क 24:19:42
8	सिंह 11:18:31	सिंह 28:17:19
9	कन्या 15:16:08	तुला 02:14:56
10	तुला 19:13:45	वृश्चिक 06:12:33
11	वृश्चिक 19:13:45	धनु 02:14:56
12	धनु 15:16:08	धनु 28:17:19


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	मकर	24:19:42
2	मीन	03:24:59
3	मेष	08:02:46
4	वृष	06:12:33
5	मिथुन	00:44:27
6	मिथुन	25:19:49
7	कर्क	24:19:42
8	कन्या	03:24:59
9	तुला	08:02:46
10	वृश्चिक	06:12:33
11	धनु	00:44:27
12	धनु	25:19:49


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



Kalsarp dosh nivaran kendra

Trimbakeshwar, nashik 42212
8975926418 , 9284065608
kalsarpnivaranpuja@gmail.com

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 6 वर्ष 3 मास 23 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
08/02/1983	03/06/1989	03/06/2009	03/06/2015	03/06/2025
03/06/1989	03/06/2009	03/06/2015	03/06/2025	02/06/2032
08/02/1983	शुक्र 02/10/1992	सूर्य 20/09/2009	चंद्र 02/04/2016	मंगल 30/10/2025
शुक्र 30/12/1983	सूर्य 02/10/1993	चंद्र 22/03/2010	मंगल 02/11/2016	राहु 17/11/2026
सूर्य 06/05/1984	चंद्र 03/06/1995	मंगल 28/07/2010	राहु 03/05/2018	गुरु 24/10/2027
चंद्र 05/12/1984	मंगल 02/08/1996	राहु 21/06/2011	गुरु 02/09/2019	शनि 02/12/2028
मंगल 03/05/1985	राहु 03/08/1999	गुरु 09/04/2012	शनि 03/04/2021	बुध 29/11/2029
राहु 22/05/1986	गुरु 03/04/2002	शनि 22/03/2013	बुध 02/09/2022	केतु 27/04/2030
गुरु 28/04/1987	शनि 03/06/2005	बुध 26/01/2014	केतु 03/04/2023	शुक्र 27/06/2031
शनि 05/06/1988	बुध 02/04/2008	केतु 03/06/2014	शुक्र 02/12/2024	सूर्य 02/11/2031
बुध 03/06/1989	केतु 03/06/2009	शुक्र 03/06/2015	सूर्य 03/06/2025	चंद्र 02/06/2032

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
02/06/2032	03/06/2050	03/06/2066	03/06/2085	04/06/2102
03/06/2050	03/06/2066	03/06/2085	04/06/2102	00/00/0000
राहु 14/02/2035	गुरु 21/07/2052	शनि 06/06/2069	बुध 30/10/2087	केतु 31/10/2102
गुरु 09/07/2037	शनि 01/02/2055	बुध 14/02/2072	केतु 26/10/2088	शुक्र 09/02/2103
शनि 15/05/2040	बुध 09/05/2057	केतु 25/03/2073	शुक्र 27/08/2091	00/00/0000
बुध 02/12/2042	केतु 15/04/2058	शुक्र 24/05/2076	सूर्य 03/07/2092	00/00/0000
केतु 21/12/2043	शुक्र 14/12/2060	सूर्य 06/05/2077	चंद्र 02/12/2093	00/00/0000
शुक्र 21/12/2046	सूर्य 02/10/2061	चंद्र 06/12/2078	मंगल 29/11/2094	00/00/0000
सूर्य 14/11/2047	चंद्र 01/02/2063	मंगल 14/01/2080	राहु 18/06/2097	00/00/0000
चंद्र 15/05/2049	मंगल 08/01/2064	राहु 20/11/2082	गुरु 24/09/2099	00/00/0000
मंगल 03/06/2050	राहु 03/06/2066	गुरु 03/06/2085	शनि 04/06/2102	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 6 वर्ष 3 मा 25 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

मंगल - राहु 30/10/2025 17/11/2026	मंगल - गुरु 17/11/2026 24/10/2027	मंगल - शनि 24/10/2027 02/12/2028	मंगल - बुध 02/12/2028 29/11/2029	मंगल - केतु 29/11/2029 27/04/2030
राहु 26/12/2025 गुरु 15/02/2026 शनि 17/04/2026 बुध 10/06/2026 केतु 03/07/2026 शुक्र 05/09/2026 सूर्य 24/09/2026 चंद्र 26/10/2026 मंगल 17/11/2026	गुरु 02/01/2027 शनि 25/02/2027 बुध 14/04/2027 केतु 04/05/2027 शुक्र 30/06/2027 सूर्य 17/07/2027 चंद्र 14/08/2027 मंगल 03/09/2027 राहु 24/10/2027	शनि 27/12/2027 बुध 23/02/2028 केतु 17/03/2028 शुक्र 24/05/2028 सूर्य 13/06/2028 चंद्र 17/07/2028 मंगल 09/08/2028 राहु 09/10/2028 गुरु 02/12/2028	बुध 22/01/2029 केतु 12/02/2029 शुक्र 14/04/2029 सूर्य 02/05/2029 चंद्र 01/06/2029 मंगल 22/06/2029 राहु 16/08/2029 गुरु 03/10/2029 शनि 29/11/2029	केतु 08/12/2029 शुक्र 02/01/2030 सूर्य 09/01/2030 चंद्र 22/01/2030 मंगल 30/01/2030 राहु 22/02/2030 गुरु 14/03/2030 शनि 06/04/2030 बुध 27/04/2030
मंगल - शुक्र 27/04/2030 27/06/2031	मंगल - सूर्य 27/06/2031 02/11/2031	मंगल - चंद्र 02/11/2031 02/06/2032	राहु - राहु 02/06/2032 14/02/2035	राहु - गुरु 14/02/2035 09/07/2037
शुक्र 07/07/2030 सूर्य 29/07/2030 चंद्र 02/09/2030 मंगल 27/09/2030 राहु 30/11/2030 गुरु 26/01/2031 शनि 03/04/2031 बुध 03/06/2031 केतु 27/06/2031	सूर्य 04/07/2031 चंद्र 14/07/2031 मंगल 22/07/2031 राहु 10/08/2031 गुरु 27/08/2031 शनि 16/09/2031 बुध 05/10/2031 केतु 12/10/2031 शुक्र 02/11/2031	चंद्र 20/11/2031 मंगल 02/12/2031 राहु 03/01/2032 गुरु 01/02/2032 शनि 06/03/2032 बुध 05/04/2032 केतु 17/04/2032 शुक्र 23/05/2032 सूर्य 02/06/2032	राहु 28/10/2032 गुरु 09/03/2033 शनि 12/08/2033 बुध 30/12/2033 केतु 25/02/2034 शुक्र 09/08/2034 सूर्य 27/09/2034 चंद्र 18/12/2034 मंगल 14/02/2035	गुरु 10/06/2035 शनि 27/10/2035 बुध 28/02/2036 केतु 20/04/2036 शुक्र 13/09/2036 सूर्य 26/10/2036 चंद्र 07/01/2037 मंगल 28/02/2037 राहु 09/07/2037
राहु - शनि 09/07/2037 15/05/2040	राहु - बुध 15/05/2040 02/12/2042	राहु - केतु 02/12/2042 21/12/2043	राहु - शुक्र 21/12/2043 21/12/2046	राहु - सूर्य 21/12/2046 14/11/2047
शनि 21/12/2037 बुध 17/05/2038 केतु 17/07/2038 शुक्र 07/01/2039 सूर्य 28/02/2039 चंद्र 25/05/2039 मंगल 25/07/2039 राहु 28/12/2039 गुरु 15/05/2040	बुध 24/09/2040 केतु 17/11/2040 शुक्र 22/04/2041 सूर्य 07/06/2041 चंद्र 24/08/2041 मंगल 17/10/2041 राहु 06/03/2042 गुरु 08/07/2042 शनि 02/12/2042	केतु 25/12/2042 शुक्र 27/02/2043 सूर्य 18/03/2043 चंद्र 19/04/2043 मंगल 11/05/2043 राहु 08/07/2043 गुरु 28/08/2043 शनि 28/10/2043 बुध 21/12/2043	शुक्र 21/06/2044 सूर्य 14/08/2044 चंद्र 14/11/2044 मंगल 17/01/2045 राहु 30/06/2045 गुरु 23/11/2045 शनि 16/05/2046 बुध 18/10/2046 केतु 21/12/2046	सूर्य 06/01/2047 चंद्र 03/02/2047 मंगल 22/02/2047 राहु 12/04/2047 गुरु 26/05/2047 शनि 17/07/2047 बुध 01/09/2047 केतु 21/09/2047 शुक्र 14/11/2047

Kalsarp dosh nivaran kendra

Trimbakeshwar, nashik 42212
8975926418 , 9284065608
kalsarpnivaranpuja@gmail.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	8
भाग्यांक	4
मित्र अंक	1, 2, 8, 4
शत्रु अंक	3, 7, 9
शुभ वर्ष	26,35,44,53,62
शुभ दिन	शुक्र, शनि, बुध
शुभ ग्रह	शुक्र, शनि, बुध
मित्र राशि	मीन, सिंह
मित्र लग्न	मेष, कन्या, वृश्चिक
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	नीलम
शुभ उपरत्न	जमुनिया, बिलौर
भाग्य रत्न	पन्ना
शुभ धातु	लौह
शुभ रंग	काला
शुभ दिशा	पश्चिम
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	कस्तूरी, कृष्ण गौ, उपानह
दान अन्न	उड़द
दान द्रव्य	तेल

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
नीलम	शनि	100%	व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य, धन
हीरा	शुक्र	98%	धन, सन्तति सुख, व्यावसायिक उन्नति
मूंगा	मंगल	62%	धन, सुख, धनार्जन
पन्ना	बुध	53%	कम खर्च, शत्रु व रोग मुक्ति, भाग्योदय
लहसुनिया	केतु	47%	व्यय, हानि
पुखराज	गुरु	22%	हानि, व्यय, पराक्रम हानि
माणिक्य	सूर्य	16%	रोग, दुर्घटना
मोती	चंद्र	16%	व्यय, दाम्पत्य कष्ट
गोमेद	राहु	12%	शत्रु व रोग, व्यय



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	03/06/1989	0%	0%	69%	53%	22%	100%	91%	0%	61%
शुक्र	03/06/2009	0%	0%	62%	59%	22%	100%	100%	25%	55%
सूर्य	03/06/2015	41%	28%	69%	53%	34%	86%	91%	0%	22%
चंद्र	03/06/2025	28%	41%	62%	59%	22%	98%	100%	0%	22%
मंगल	02/06/2032	28%	28%	75%	31%	34%	98%	100%	0%	55%
राहु	03/06/2050	0%	0%	50%	53%	22%	100%	100%	38%	22%
गुरु	03/06/2066	28%	28%	69%	31%	47%	86%	100%	12%	47%
शनि	03/06/2085	0%	0%	50%	59%	22%	100%	100%	25%	22%
बुध	04/06/2102	28%	0%	62%	66%	22%	100%	100%	12%	47%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	21/12/1984-01/06/1985 17/09/1985-17/12/1987	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	17/12/1987-21/03/1990 20/06/1990-15/12/1990	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	21/03/1990-20/06/1990 15/12/1990-05/03/1993 15/10/1993-10/11/1993	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/06/1995-10/08/1995 16/02/1996-17/04/1998	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007	-----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017 26/10/2017-24/01/2020	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	24/01/2020-29/04/2022 12/07/2022-17/01/2023	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049 10/07/2049-04/12/2049	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	06/03/2049-10/07/2049 04/12/2049-25/02/2052	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	सम	अल्प बचत
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	अशुभ	कम खर्च
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	शुभ	स्वास्थ्य
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	शुभ	पराक्रम
अष्टम स्थानस्थ ढैया	सम	दाम्पत्य कलह

Kalsarp dosh nivaran kendra

Trimbakeshwar, nashik 42212
8975926418, 9284065608
kalsarpnivaranpuja@gmail.com

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति द्वितीय भाव में है। कुंडली में यह भाव मुख्य रूप से वाणी तथा कुटुम्ब का प्रतिनिधित्व करता है। अतः मंगल के प्रभाव से आपकी पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि मध्यम रहेगी तथा यदा कदा पारिवारिक जनों में मतभेद का वातावरण बन सकता है। इसी कारण दक्षिण भारत में इसे कुज दोष भी माना जाता है। आपकी वाणी में भी ओजस्विता का भाव रहेगा तथा लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। धनार्जन के लिए यह स्थिति उत्तम रहेगी तथा स्वपरिश्रम एवं पराकम से आप इच्छित धन एवं सुख संसाधनों को अर्जित करके पारिवारिक जनों को सन्तुष्ट करने में समर्थ रहेंगे।

कुंडली में द्वितीय भावस्थ मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि से पुत्र संतति से आप युक्त रहेंगे तथा जीवन में उनसे आपको पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा लेकिन संतति प्राप्ति में किंचित विलम्ब हो सकता है साथ ही उच्च शिक्षा अर्जित करने में भी आप सफल रहेंगे। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा। यदा कदा पित या गर्मी से कोई परेशानी हो सकती है लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य यथा समय सिद्ध होंगे। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आप अपने कार्यों एवं पराकम से भाग्य का निर्माण करेंगे। जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे साथ ही आप भाग्य वादी न होकर कर्म करने में विश्वास रखेंगे।

इस प्रकार आप द्वितीय भावस्थ मंगल के प्रभाव से पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि को बनाएं रखेंगे तथा पारिवारिक जनों का उचित रूप से पालन करेंगे साथ ही वे भी आपको यथोचित सुख एवं सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको किसी गैर मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए। जिससे आप प्रसन्नता पूर्वक जीवन में सुखों का उपभोग करेंगे तथा एक दूसरे को सहयोग प्रदान करके

मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त करेंगे।



Kalsarp dosh nivaran kendra

Trimbakeshwar, nashik 42212
8975926418 , 9284065608
kalsarpnivaranpuja@gmail.com

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- चन्द्र पर राहु और शनि दोनों का प्रभाव है ।
- पंचम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है ।
- नवम भाव के स्वामी पर शनि और राहु का प्रभाव है ।
- लग्नेश शनि व राहु दोनों से प्रभावित है ।

आपकी कुण्डली में चन्द्र, बुध, शुक्र और शनि के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में चंद्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः माता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ सोमवार को प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं साथ ही शिव पंचाक्षरी “ॐ नमः शिवाय” का मंत्र जाप करें । दुर्गा, शिव या पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करें । ढाक की समिधा व जड़ी-बूटियों से हवन करे तथा गौ-दान करें ।

आपकी कुण्डली में बुध पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला सदस्य द्वारा बच्चों पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ

आप बहन, बुआ तथा मौसी की सेवा करके आर्शीवाद लें तथा तोते को हरी मिर्च खिलाकर पिंजड़े से मुक्त कर दें।

आपकी कुंडली में शुक्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ गरीब या जरूरतमंद स्त्रियों, कन्याओं को तथा पत्नी को दान दें। 11 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को मंदिर में खीर खिलायें।

आपकी कुंडली में शनि पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा दलित पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ भगवान रुद्र की पूजा करें। पीपल को जल चढ़ायें व पूजा करें। शम्मी की समिधा से हवन करें। बकरी व शनि प्रीतकारी वस्तुओं का दान करें। गरीब या जरूरतमंदों की सहायता के रूप में दान दें तथा कौए को खाने का पहला ग्रास खिलायें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

लग्न (प्रथम) में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी, चंचल, कृशदेही, प्रवासी उन्नत नासिका, विशाल ललाटवाला, पित्त-वातरोगी, शूरवीर, अस्थिर सम्पत्तिवाला एवं अल्पकेशी होता है।

मकर राशि में रवि हो तो जातक बहुभाषी, चंचल, झगड़ालू, दुराचारी, लोभी एवं परिश्रमी होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य लग्न में स्थित है। अतः पिता के आप प्रिय रहेंगे तथा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा एवं किसी भी प्रकार से शारीरिक रुग्णता का अभाव रहेगा। साथ ही उनकी आयु भी दीर्घ रहेगी। जीवन में वे आपको अपना आर्थिक तथा अन्य रूप से नित्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे जिससे आपके सभी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होंगे। साथ ही पिता के द्वारा आपको ख्याति भी अर्जित होती रहेगी।

आपके मन में भी उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा एवं सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा। साथ ही उनकी आज्ञा का अनुपालन करने के लिए भी आप तत्पर रहेंगे। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे लेकिन इसका संबंधों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही आप जीवन में उनको पूर्ण रूप से आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे एवं अपनी ओर से कोई कष्ट भी नहीं होने देंगे।

चन्द्र

बारहवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक मृदुभाषी, चिन्ताशील, एकात्प्रिय, कोधी, कफरोगी, चंचल, नेत्ररोगी एवं अधिक व्यय करने वाला होता है।

धनु राशि में चन्द्रमा हो तो जातक वक्त, सुन्दर, शिल्पज्ञ, शत्रुविनाशक उच्च बौद्धिक स्तर वाला, सुखी विवाहित जीवन, विरासत में धन सम्पत्ति पाने वाला, साहित्य के प्रति रुचि का दिखावा करने वाला एवं लेखक होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति द्वादश भाव में है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य सामान्य अच्छा रहेगा तथा यदा कदा कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपके प्रति उनके मन में वात्सल्य का भाव रहेगा तथा जीवन में आपको प्रायः यथाशक्ति अपना सहयोग प्रदान करती रहेंगी। आप उनसे अच्छे तथा पुण्य के कार्यों के प्रति प्रवृत्त होंगे तथा समयानुसार दानादि को भी उन्हीं के कथनानुसार सम्पन्न करेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति आदर का भाव रहेगा एवं उनकी आज्ञा का पालन आप कुछ अवसरों को छोड़कर करते रहेंगे। आपके परस्पर संबंध विशेष मधुर नहीं होंगे क्योंकि आप में काफी मतभेद रहेंगे तथापि सांसारिक संबंधों में कोई तनाव नहीं रहेगा एवं सामंजस्य पूर्वक आप के परस्पर व्यवहार चलते रहेंगे। साथ ही उन्हें कष्ट के समय आप अपनी ओर से

पूर्ण सहयोग तथा सहायता अवश्य प्रदान करेंगे।

मंगल

द्वितीय भाव में मंगल हो तो जातक कटुभाषी, नेत्रकर्ण रोगी, कटुतिक्त रसप्रिय, धर्मप्रेमी, चोर से भक्ति, कुटुम्ब क्लेश वाला, पशुपालक, निर्बुद्धि एवं निर्धन होता है।

कुम्भ राशि में मंगल हो तो जातक व्यसनी, लोभी, सट्टे से धननाशक, आचारहीन, मत्सरवृत्ति एवं बुद्धिहीन होता है।

आप के जन्म काल में मंगल द्वितीय भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा वे शारीरिक रूप से व्याकुलता की अनुभूति भी करते रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह भाव विद्यमान रहेगा। धनार्जन एवं विद्यार्जन संबंधी कार्यों में वे आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही जीवन में अन्य महत्वपूर्ण एवं शुभ कार्यों में भी आपको उनका पूर्ण सहयोग एवं सद्भाव प्राप्त होगा।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह की भावना रहेगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा उनमें आपसी मतभेदों के कारण अनिश्चित काल के लिए कटुता या तनाव का वातावरण होगा। जीवन में आप हमेशा भाई बहिनों का सुख दुःख में ध्यान रखेंगे तथा अपनी ओर से हमेशा उन्हें पूर्ण आर्थिक एवं अन्य रूप में सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

बुध

बारहवें भाव में बुध हो तो जातक अल्पभाषी, विद्वान्, आलसी धर्मात्मा, वकील, सुन्दर, वेदान्ती, लेखक, दानी एवं शास्त्रज्ञ होता है।

धनु राशि में बुध हो तो जातक विद्वान्, समाज में सम्मानित, गुणी, सुगठित शरीर, अविवेकी, अच्छा संगठनकर्ता, चतुर, ईमानदार, उदार, प्रसिद्ध, राजमान्य, लेखक, सम्पादक एवं वक्ता होता है।

गुरु

ग्यारहवें भाव में गुरु हो तो जातक व्यवसायी, धनिक, सन्तोषी, सुन्दरनिरोगी, लाभवान्, पराकमी, सद्ब्ययी, बहुस्त्रीयुक्त, विद्वान् राजपूज्य एवं अल्पसन्ततिवान् होता है।

वृश्चिक राशि में गुरु हो तो जातक शास्त्रज्ञ, राजमन्त्री, कार्यकुशल, सुगठित शरीर, अपनी उच्चता का दिखावा करने वाला, स्वार्थी, निर्बलस्वास्थ्य, दुःखी एवं कामुक होता है।

शुक्र

द्वितीयभाव में शुक्र हो तो जातक भाग्यवान्, साहसी, समयज्ञ, मिष्टान्नभोजी, यशस्वी, लोकप्रिय, जौहरी, दीर्घजीवी, कवि, कुटुम्बयुक्त, सुखी एवं धनवान् होता

है।

कुम्भ राशि में शुक हो तो जातक शान्तिप्रिय, दूसरों को सहायता करने वाला, सच्चरित्र, सुन्दर, लोकप्रिय, चिन्ताशील एवं रोग से सन्तप्त होता है।

शनि

दशम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान, ज्योतिषी, राजयोगी, न्यायी, नेता, धनवान्, राजमान्य, उदरविकारी, अधिकारी, चतुर, भाग्यवान् परिश्रमी, निरुद्पयोगी एवं महत्त्वाकांक्षी होता है।

तुला राशि में शनि हो तो जातक राजनीति में रुचि रखने वाला, प्रसिद्धनेता, धनी, सम्मानित शक्तिशाली, दानशील, परस्त्रियों में रुचि, सुभाषी, यशस्वी, स्वाभिमानी एवं उन्नतिशील होता है।

राहु

षष्ठभाव में राहु हो तो जातक शत्रुहन्ता, कमरदर्द पीड़ित, अरिष्टनिवारक, विदेशियों से लाभ, पराक्रमी, बड़े-बड़े कार्य करनेवाला, दीर्घायु, साहसी, धनी एवं प्रसिद्ध होता है।

मिथुन राशि में राहु हो तो जातक- साहसी, दीर्घायु, साधु गाने वाला, योगाभ्यासी एवं बलवान् होता है।

केतु

बारहवें भाव में केतु हो तो जातक चंचल बुद्धि, धूर्त, ऋण तांत्रिक, अतव्ययी निर्बल स्वास्थ्य, पागलपन, मोक्ष प्राप्ति, अविश्वासी एवं जनता को भूल-प्रेतों की जानकारी द्वारा ठगने वाला होता है।

धनु राशि में केतु हो तो जातक चंचल, धूर्त एवं मिथ्यावादी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- मंगल
(03/06/2025 - 02/06/2032)

मंगल की महादशा 03/06/2025 को आरम्भ और 02/06/2032 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्ष है। आपकी जन्मकुण्डली में मंगल द्वितीय भाव में अवस्थित है। इसके पूर्व आपकी चन्द्रदशा चल रही थी जिसकी अवधि 10 वर्ष की थी। मंगल के पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको बच्चों से सुख, उत्तम शिक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मंगल की इस दशा में आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर होगा।

स्वास्थ्य :

इस दशा-काल में आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप में आत्मविश्वास तथा पहल-शक्ति होगी और आप सक्रिय तथा स्फूर्तिवान होंगे। कुछ मौसमी बीमारियों को छोड़ आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। सरदर्द, ज्वर, संक्रमण, ताप संबंधी बीमारियों आदि की सम्भावना है।

अर्थ और व्यवसाय :

इस दशा के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आप धन-संपत्ति का संचय करेंगे। आपको पिता से लाभ होगा। आपको कुछ-पैतृक-सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। व्यवसाय और जीवन-वृत्ति से उपार्जन में भी वृद्धि होगी। मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप आपको सट्टे तथा निवेश में लाभ होगा। अपनी जीविका के लिये सैन्य सेवा, सर्जरी तथा चिकित्सा कार्य, दन्तचिकित्सा, भूगर्भ-विज्ञानी अथवा रसायनज्ञ के कार्यों का चयन कर सकते हैं। आप असैनिक तथा यांत्रिक अभियंत्रण और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अच्छा करेंगे। लौह-इस्पात, खेल के सामानों, ताम्बे, खनिज पदार्थों आदि का व्यवसाय लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिये दशा उत्तम रहेगी। आपकी आय में वृद्धि तथा पदोन्नति होगी और उच्चाधिकारियों का अनुग्रह प्राप्त होगा। व्यवसाय-व्यापार से जुड़े लोगों के लिये समय समृद्धिशाली रहेगा। आय तथा गतिविधियों में वृद्धि होगी। व्यापार का विस्तार हो सकता है और व्यापार से जुड़े लोग व्यस्त रहेंगे। आर्थिक सफलता के लिए यह दशा उत्तम है।

वाहन, यात्राएँ, सम्पत्ति :

बुध की अन्तर्दशा में आपको जीवन के सुख मिलेंगे। इस अन्तर्दशा के दौरान आपको वाहन की प्राप्ति होगी। मंगल तथा बुध की अन्तर्दशा में जमीन-जायदाद के मामले लाभदायक होंगे। यह अवधि सभी आर्थिक कारोबार के लिए उत्तम है। शुक्र की अन्तर्दशा में आपकी छोटी तथा शनि और मंगल की अन्तर्दशाओं लम्बी यात्राएँ होगी।

शिक्षा :

इस दशा के दौरान आपकी शिक्षा उत्तम होगी। गणित, विज्ञान तथा प्रशासन व प्रबन्धन से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन लाभदायक होगा। आप परीक्षाओं में सफल होंगे।

Kalsarp dosh nivaran kendra

Trimbakeshwar, nashik 42212
8975926418, 9284065608
kalsarpnivaranpuja@gmail.com

इस अवधि में आप उच्च शिक्षा भी आरम्भ कर सकते हैं। आप अपने स्वभावगत नेतृत्व तथा बैद्धिक गुणों का प्रदर्शन करेंगे।

परिवार :

परिवार में आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपके बच्चों के साथ आपके सम्बन्ध अत्यन्त मधुर रहेंगे और आपको उनसे बहुत सुख प्राप्त होगा। वे अपनी शिक्षा में अच्छे करेंगे और आप उनसे गौरवान्वित होंगे। आपके जीवनसाथी को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। सद्भावपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के लिए कटु भाषा का प्रयोग न करें। आपकी माता को इस अवधि में लाभ प्राप्त होगा और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपके पिता को उनके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके छोटे भाई-बहनों का शुभ उद्देश्यों के लिए व्यय होगा और उनकी यात्रा होगी तथा आपके बड़े भाई-बहनों को यश, ख्याति, आय, शक्ति तथा अधिकार की प्राप्ति होगी। आपके मित्रों की संख्या विशाल होगी जिनसे आपको लाभ मिलेगा।

अन्तर्दशा :

मंगल की मुख्य दशा में उसकी अन्तर्दशा के कारण आपको पिता से लाभ तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होगी और आपकी यात्रा होगी। इसके पश्चात् आरम्भ होनेवाली राहु की अन्तर्दशा के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा के कारण आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुख में वृद्धि होगी जबकि शनि की अन्तर्दशा के कारण आय-व्यय समान होंगे और आपकी यात्रा होगी। बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपका विवाह हो सकता है और साझेदारों से लाभ और सुख की प्राप्ति हो सकती है जबकि केतु के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप परिवर्तन और छोटी यात्राओं की प्राप्ति हो सकती है जबकि सूर्य की अन्तर्दशा के कारण शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप सन्तान से सुख और निवेश तथा सङ्गे में लाभ होगा।

**अंतर्दशा :- मंगल - राहु
(30/10/2025 - 17/11/2026)**

आपके लिए मंगल की महादशा 03/06/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में दूसरी अंतर्दशा राहु की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 18 दिन होगी। आपके लिए यह 30/10/2025 को प्रारंभ होकर 17/11/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक लाभ, परिवर्तन और लंबी यात्राओं का कारक है।

इस अवधि में आपके धन और सम्मान में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय होगी। शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता उत्तम रहेगी; सब बाधाएं पार करेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके कर्मचारी या मातहत वफ़ादार रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत लाभ होगा। खर्च बढ़ सकते हैं। पराविद्या या समाजकार्य में रुचि ले सकते हैं।

आपके जीवनसाथी की यात्राएं हो सकती हैं या विदेशियों से संपर्क बढ़ सकता है। आपके पिता कार्यक्षेत्र में उन्नति करेंगे। आपकी माता लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। आपके भाई-बहन भौतिक सुख-साधन क्रय करेंगे, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

आपकी संतान अगर शिक्षारत हैं तो घर से दूर जा सकते हैं। अगर वे कार्यरत हैं तो धन कमाएंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यों में सफलता मिलेगी। परामर्शदाता सुखी रहेंगे। व्यापारियों की लंबी यात्राएं हो सकती हैं; विदेश से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। चोट आदि से बचाव करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम रहेगी। अरिष्ट से बचाव के लिए शनिवार को शिवजी की पूजा भैरव रूप में करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - गुरु
(17/11/2026 - 24/10/2027)**

आपकी मंगल की महादशा 03/06/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा बृहस्पति की होगी जिसकी अवधि 11 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 17/11/2026 को प्रारंभ होकर 24/10/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति विवेक, संतान और आध्यात्मिकता का कारक है।

इस अवधि में आप सफल और धनी होंगे। धन का संचय होगा। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। कोई पुरस्कार मिल सकता है। प्रभावशाली लोगों से मित्रता हो सकती है, उनसे लाभ होगा। व्यापार में लाभ होगा। घर में कोई उत्सव हो सकता है। आयु में बड़े लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। विवाह हो सकता है। घरेलू सुख मिलेगा, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी; शत्रु परास्त होंगे। आपके पिता की समस्याएं सुलझेंगी; उच्च पद और शांति की प्राप्ति होगी। माता को अचानक धन या अचल

संपत्ति मिल सकते हैं। भाई-बहन धनी बनेंगे, यात्राएं होंगी, उच्च पद मिलेगा, समाज में उन्नति होगी।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यालय उत्तम होगा। परामर्शदाता धन कमाएंगे। व्यापारियों को निवेश से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मगर कान और पैरों की व्याधियों से बचें। शुभत्व में वृद्धि के लिए विष्णुजी की आराधना करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शनि
(24/10/2027 - 02/12/2028)**

आपके लिए मंगल की महादशा 03/06/2025 को आरंभ हुई थी। इस महादशा में चौथी अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 1 मास 9 दिन रहेगी। आपके लिए यह 24/10/2027 को प्रारंभ होकर 02/12/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, सेवा और पश्चिम दिशा का कारक है।

इस अवधि में आप व्यापार से धन कमाएंगे। चुनाव में विजय हो सकती है। जनता साथ देगी। कार्यों में सफलता मिलेगी। धन का संचय होगा। उच्चपद मिल सकता है। अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं, उस से आमदनी बढ़ेगी। सब सुख मौजूद रहेंगे; माता से खुशियां मिलेंगी। विवाह हो सकता है। प्रोन्नति संभव है। व्यापार से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। शत्रुओं पर विजय होगी। दान-धर्म में भाग ले सकते हैं।

आपके जीवनसाथी की अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। आपके पिता के धन में वृद्धि होगी। आपकी माता का जनसंपर्क बढ़ेगा। आपके भाई-बहनों के जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, अप्रत्याशित आय हो सकती है, खर्च बढ़ेंगे।

आपकी संतान को स्पर्धियों पर विजय मिलेगी। अगर वे सेवारत हैं तो उच्चपद मिल सकता है।

अगर आप सेवारत हैं तो भाग्यशाली रहेंगे। परामर्शदाताओं को विभिन्न माध्यमों से लाभ होगा, उत्साह उत्तम रहेगा। व्यापारी निवेश करेंगे; धनार्जन उत्तम रहेगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पैरों और घुटनों का ध्यान रखें। अरिष्ट से बचाव के लिए काली चीजों का दान करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - बुध
(02/12/2028 - 29/11/2029)**

आपके लिए मंगल की महादशा 03/06/2025 को प्रारंभ हुई थी। इसमें पांचवी अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन है। आपके लिए यह 02/12/2028 को प्रारंभ होकर 29/11/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध वाणी, शिक्षा और सम्मान का कारक है।

इस अवधि में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। एकांत में किये काम लाभप्रद रहेंगे। ध्यान, तंत्र आदि में रुचि हो सकती है। लंबी यात्रा या विदेशयात्रा से लाभ हो सकता है। आयात-निर्यात में सफल हो सकते हैं। शत्रुओं पर विजयी रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति के बहुत से अवसर मिलेंगे। धर्म में रुचि रहेगी। स्वास्थ्य उत्तम होगा। किराये आदि से आमदनी अच्छी हो सकती है; किरायेदार सहयोग करेंगे।

आपके जीवनसाथी कार्यक्षेत्र में उन्नति करेंगे; स्वास्थ्य उत्तम होगा। आपके पिता अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं। माता की समृद्धि बढ़ेगी, लंबी यात्राएं होंगी, धर्म में ध्यान लगाएंगी। आपके भाई-बहनों को नौकरी में तरक्की मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा, कार्यों में उन्नति होगी।

आपकी संतान के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है; शिक्षा पूर्ण हो सकती है या नये पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। अगर वे सेवारत हैं तो तबादला हो सकता है या नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, अचानक लाभ संभव है।

अगर आप सेवारत हैं तो सामूहिक कार्य से लाभ होगा। परामर्शदाताओं को जनता से लाभ होगा। व्यापारियों के कार्यक्षेत्र में सुविधाएं बढ़ेंगी।

आंख, पैर और स्नायुतंत्र के रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए बुध के गायत्री मंत्र का जाप करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - केतु
(29/11/2029 - 27/04/2030)**

आपके लिए मंगल की महादशा 03/06/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा केतु की है जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी। आपके लिए यह 29/11/2029 को प्रारंभ होकर 27/04/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु नाना और मोक्ष का कारक है।

इस अवधि में आप उत्तम कार्य करेंगे; प्रसिद्धि और सम्मान पाएंगे। नौकरी में प्रोन्नति मिल सकती है। व्यापार में तरक्की होगी। विदेश में निवास हो सकता है। अगर अध्ययनरत हैं तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। अध्यात्म में रुचि हो सकती है। अकेले किये कार्य सफलता दिलाएंगे। मामापक्ष के लोगों से लाभ हो सकता है। सहकर्मी और मातहत सहयोग करेंगे। रिश्तेदार प्रसन्न रहेंगे।

आपके जीवनसाथी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उन्हें मामा से लाभ होगा। आपके पिता की अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। माता भाग्यशाली होंगी, सुख के सब साधन प्राप्त होंगे। आपके भाई-बहन कार्यक्षेत्र में उन्नति करेंगे, लाभ और सुविधाओं में वृद्धि होगी, घरेलू सुख रहेगा।

आपकी संतान के वातावरण में परिवर्तन हो सकता है। अगर वे कार्यरत हैं तो अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, पराविद्या में रुचि ले सकते हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाताओं को लक्ष्य पाने के लिए परिश्रम करना होगा। व्यापारियों के कर्मचारियों से उत्तम संबंध रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नेत्रों और पैरों का ध्यान रखें। शुभत्व में वृद्धि के लिए भूरा कुत्ता पालें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शुक्र
(27/04/2030 - 27/06/2031)**

आपके लिए मंगल की महादशा 03/06/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अन्तर्दशा शुक्र की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 2 मास होगी। आपके लिए यह 27/04/2030 को प्रारंभ होकर 27/06/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, कला और नफासत का कारक है।

इस अवधि में आप धनी बनेंगे। उत्तम भोजन, वस्त्र, उपहार प्राप्त करेंगे। परिवार में समृद्धि बढ़ेगी। सुंदर आभूषण और वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी। समाजसेवा में रुचि रहेगी। आपका व्यवहार मधुर होगा। वाहन सुख मिलेगा। विवाह से धन का लाभ होगा। प्रसन्नचित्त रहेंगे। साझेदार के माध्यम से या विरासत में अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं।

आपके जीवनसाथी धनी बनेंगे। आपके पिता को शत्रुओं पर विजय मिलेगी। माता को मानसिक और घरेलू सुख रहेगा। भाई-बहन धन का संग्रह कर सकते हैं; कार्यक्षेत्र में स्थिति उत्तम रहेगी।

आपकी संतान प्रतिस्पर्धा में सफल होगी। अगर वे सेवारत हैं तो सम्मान में वृद्धि होगी।

अगर आप सेवारत हैं तो जनसंपर्क में सफल होंगे। परामर्शदाताओं का सम्मान बढ़ेगा। व्यापारियों के लाभ में वृद्धि होगी।

सामान्यतः स्वास्थ्य उत्तम होगा। नेत्र और गले की मामूली शिकायत हो सकती है। अरिष्ट से बचाव के लिए लक्ष्मीजी की आराधना करें।